



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 2351]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )

( भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2851(अ).—भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के नियम 3 के उप-नियम (3) और (4) के साथ पठित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 35 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारों में संग्रह के लिए जिन्सों की सूची अधिसूचित करता है :—

क्रम जिन्स का नाम

संख्या

(1) (2)

(अ) दालें

1. उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम)
2. उड़द विभाजित (छिलका युक्त)
3. उड़द विभाजित (छिलका रहित)
4. मूंग (साबुत)
5. मूंग विभाजित (छिलका युक्त)
6. मूंग विभाजित (छिलका रहित)
7. मसूर (लेंटिल) साबुत

4532 GI/2012

(1) (2)

8. मसूर (लेंटिल) विभाजित (छिलका युक्त)
9. अरहर/तुर (रेड ग्राम) साबुत
10. अरहर/तुर (रेड ग्राम) विभाजित (छिलका युक्त)
11. काबली चना
12. चना साबुत (बंगाल ग्राम)
13. चना विभाजित (छिलका युक्त)/दाल चना
14. मटकी/मोंठ साबुत
15. मटकी/मोंठ विभाजित (छिलका युक्त)
16. पीले मटर (साबुत)
17. राजमा
18. लोबिया

(आ) अनज

19. कच्चा मशीन कुटा अति परिष्कृत/परिष्कृत चावल
20. कच्चा मशीन कुटा मध्यम चावल
21. कच्चा मशीन कुटा (अपरिष्कृत) चावल
22. उसना मशीन कुटा अति परिष्कृत/परिष्कृत चावल
23. उसना मशीन कुटा मध्यम चावल
24. उसना मशीन कुटा सामान्य (अपरिष्कृत) चावल
25. अपरिष्कृत चावल टुकड़ा
26. सामान्य चावल टुकड़ा

(इ) खाद्य तेल\*

27. सरसों का तेल
28. मूंगफली का तेल

(1)

(1) (2)

29. तिल (तिल या जिंगली तेल)
30. नारियल का तेल
31. अलसी का तेल
32. एरंड का तेल
33. तिल्ली का तेल
34. कुसुम का तेल
35. बिनौले का तेल
36. चावल भूसी का तेल
37. सोयाबीन का तेल
38. सूर्यमुखी का तेल
39. मक्की (कोर्न) का तेल
40. महुआ (मोराह) का तेल
41. सनसीड का तेल (फैट)

(ई) तिलहन\*

42. तारामीरा
43. तिल्ली
44. बिनौला
45. कुसुम
46. अलसी
47. महुआ
48. सलसीड
49. तिल

(उ) खाद्य मेवे

50. अखरोट
51. कच्चे काजू
52. मूंगफली
53. नारियल

(ऊ) मसाले\*

54. अजवायन (साबुत और चूर्ण)
55. जावित्री
56. बीज रहित इमली
57. लौंग
58. मिश्रित मसाला चूर्ण
59. धूप में सुखाया हुआ कच्चा आम कतली और चूर्ण
60. मिश्रित हींग
61. जायफल
62. कड़ी चूर्ण
63. केसर

(1) (2)

64. तेजपत्ता
65. खसखस
- (ए) मखाना
66. मखाना
67. मखाना चूर्ण
68. तला हुआ मखाना

(ऐ) विविध

69. ग्वार
70. चाय\*\*
71. काफी, अरेबिका और रोबस्टा\*\*
72. तंबाकू\*\*
73. रबड़\*\*
74. देसी चना
75. भारतीय शक्कर\*\*

\*जिन्सों का प्रयोगशाला विश्लेषण अपेक्षित होना।

2. उपर्युक्त जिन्सों के लिए गुणवत्ता से संबंधित विनिर्दिष्ट/मानक एगमार्क के होंगे। तथापि, यदि एगमार्क का मानक विद्यमान नहीं है तो उन जिन्सों के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सरकारी निकाय द्वारा अधिकथित गुणवत्ता मानक लागू होंगे, अर्थात् :—

\*\* (i) चाय के लिए चाय बोर्ड विनिर्दिष्टों का अनुसरण किया जाएगा।

\*\* (ii) काफी के लिए, भारतीय काफी बोर्ड की विनिर्दिष्टों का अनुसरण किया जाएगा।

\*\* (iii) रबड़ के लिए, बीआईएस की विनिर्दिष्टों का अनुसरण किया जाएगा।

\*\* (iv) भारतीय शक्कर के लिए, बीआईएस की विनिर्दिष्टों का अनुसरण किया जाएगा।

3. उन जिन्सों के लिए, जिनके लिए रासायनिक या संबंधित प्रयोगशाला विश्लेषण अपेक्षित है, भारतीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और अंशशोधन के लिए अधिसूचित सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्राधिकृत हैं।

4. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सभी प्रयोगशालाएं तथा जिन्सों के परीक्षण के लिए उनके द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्राधिकृत हैं।

[फा. सं. 27-1/2010-डब्ल्यूडीआरए(अधिसूचना)]

यतिन्द्र प्रसाद, निदेशक (प्रशा. और वित्त/डब्ल्यूडीआरए)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION**
**(Department of Food and Public Distribution)**
**(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND  
REGULATORY AUTHORITY)**
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2012

**S.O. 2851(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (q) of clause (2) of Section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 read with sub-rule (3) and (4) of rule 3 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010, the Warehousing Development and Regulatory Authority, hereby notifies the list of commodities for storing in the warehouses for implementation of the provisions of the Act :—

 Sl. Name of the Commodity  
No.

(1) (2)

**(A) Pulses**

1. Urd Whole (Black Gram)
  2. Urd split (husked)
  3. Urd split (unhusked)
  4. Moong (whole)
  5. Moong split (husked)
  6. Moong split (unhusked)
  7. Masoor (Lentil) whole
  8. Masoor (Lentil) split (husked)
  9. Arhar/Tur (Red gram) whole
  10. Arhar/Tur (Red gram) split (husked)
  11. Kabuli Chana
  12. Chana whole (Bengal Gram)
  13. Chana split (husked)/Dal Chana
  14. Matki/Moth (whole)
  15. Matki/Moth split (husked)
  16. Yellow Peas (whole)
  17. Rajma
  18. Lobia
- (B) Cereals**
19. Raw Milled Superfine/Fine Rice
  20. Raw Milled Medium Rice
  21. Raw Milled Common (Coarse) Rice
  22. Parboiled Milled Superfine/Fine Rice
  23. Parboiled Milled Medium Rice
  24. Parboiled Milled Common (Coarse) Rice

(1) (2)

25. Fine Broken Rice
  26. Common Broken Rice
- (C) Vegetable Oils\***
27. Mustard Oil
  28. Groundnut Oil
  29. Sesame (Til or Gingelly Oil)
  30. Coconut Oil
  31. Linseed Oil
  32. Castor Oil
  33. Niger Seed Oil
  34. Safflower Seed Oil
  35. Cotton Seed Oil
  36. Rice Bran Oil
  37. Soyabean Oil
  38. Sunflower Seed Oil
  39. Maize (Corn) Oil
  40. Mahua (Mowrah Oil)
  41. Salseed Oil (Fat)
- (D) Oilseeds\***
42. Taramira Seeds
  43. Sesame seeds
  44. Cotton seeds
  45. Safflower seeds
  46. Linseeds
  47. Mahua seed
  48. Sal seeds
  49. Niger seeds
- (E) Edible Nuts**
50. Walnuts
  51. Raw cashewnuts
  52. Groundnuts
  53. Coconut
- (F) Spices\***
54. Ajowan Seeds (Whole and Powdered)
  55. Mace
  56. Seedless Tamarind
  57. Cloves
  58. Mixed Masala Powders

(1) (2)

59. Sun Dried Raw Mango Slices and Powder

60. Compounded Asafoetida

61. Nutmeg

62. Curry Powder

63. Saffron

64. Tejpat

65. Poppy Seeds

**(G) Makhana**

66. Makhana

67. Makhana Powder

68. Makhana Fried

**(H) Miscellaneous**

69. Guar Seed

70. Tea\*\*

71. Coffee, Arabica and Robusta\*\*

72. Tobacco\*\*

73. Rubber\*\*

74. Desi Chana

75. Indian sugar\*\*

\* Commodities requiring laboratory analysis.

2. Qualitative specifications/standards for above commodities will be of Agmark. However, in case, Agmark standards do not exist, for those commodities quality standards laid down by the Central/State Governments/ Government bodies shall be applicable viz. :

\*\* (i) For Tea, Tea Board specifications would be followed.

\*\* (ii) For Coffee, Indian Coffee Board specifications will be followed.

\*\* (iii) For Rubber, the BIS specification would be followed.

\*\* (iv) For Indian sugar, BIS specification would be followed.

3. For commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all Agmark laboratories, all accredited laboratories notified by National Accreditation Board for Testing and Calibration and laboratories recognised by Bureau of Indian Standards (BIS), are authorized for laboratory testing.

4. In addition, all Central/State Government laboratories and other laboratories recognised by them for testing of commodities are authorized for laboratory testing.

[F. No. 27-1/2010-WDRA (Notification)]

YATINDER PRASAD, Director (Admn. and Fin./WDRA)